

**FAMILY CARE HOSPITALS LIMITED**  
**(Formally known as SCANDENT IMAGING LIMITED)**

CIN: L93000MH1994PLC080842

Regd Address: Plot No. A-357, Road No. 26, Wagle Industrial Estate, MIDC, Thane (West), Maharashtra -400604  
Tel No.022 25825205; Email: csscandent@gmail.com; Web: www.scandent.in

---

**04<sup>th</sup> February, 2023**

**To**  
**BSE Limited**  
Department of Corporate Services  
Phiroze Jeejeebhoy Towers  
Dalal Street, Fort,  
Mumbai- 400 001  
**Scrip Code: 516110**

Respected Sir/Madam,

**Sub: Submission of copies of Newspaper clipping of extension of closing date of right issue of Family Care Hospitals Limited:**

Please find the enclosed copy of Newspaper clipping of extension of closing date of right issue in pursuant to Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulation, 2015 as published in Financial Express (All India Edition), Mumbai Lakshadeep and Janasatta dated 04<sup>th</sup> February, 2023.

Kindly take this in your records and acknowledge the same.

Thanking You,

Yours truly,

**For FAMILY CARE HOSPITALS LIMITED**  
**(Formally known as Scandent Imaging Limited)**

**Sd/-**

**Pandoo Naig**  
**Managing Director**

Encl: As above



DELHI JAL BOARD OFFICE OF THE ADDITIONAL CHIEF ENGINEER (M)-2 2142, JANTA FLATS, GTB ENCLAVE, NAND NAGARI, DELHI-93					
PRESS NIT NO. 40 (2022-23)					
S. No.	Name of Work	Amount put to tender to tender	EMD Amount (in Rs.)	Tender Fees (in Rs.)	Date of release of tender in procurement solution
1	Engagement of Sewer Gang-Beldars for sewer maintenance on contract basis in Ward No. 246, 247 and 248 in Karawal Nagar AC-70 Tender ID No. 2023_DJB_235962_1	Item rate	54,000.00	500.00	03.02.2023 upto 17.02.2023 02:30 P.M.

All the terms and conditions including technical specification and special conditions is available on Delhi Govt. Website <https://delhi.govtprocurement.com>.

ISSUED BY P.R.O. (WATER) Sd/- (V. K. Chauhan)  
Advt. No. J.S.V. 472 (2022-23) EX. ENGINEER (T)-2/ M-2

"STOP CORONA; Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene".



DELHI JAL BOARD: GOVT OF NCT OF DELHI OFFICE OF THE ADD. CHIEF ENGINEER (M)-2 2142 JANTA FLATS, G.T.B. ENCLAVE DELHI-110093					
PRESS NIT NO 69 (2022-23)					
S. No.	Name of Work	Amount put to tender	Date of release of tender in E-Procurement solution	Last date / time of receipt of Tender through E-Procurement Solution	
1	Engagement of 10 nos unskilled workers for one year on contract basis for maintenance of sewerage system of Rohatash Nagar Constituency AC-64 under ACE(M)-2	Item rate	03.02.2023 2023_DJB_235983_1	14.02.2023 2:10 PM	

Further details in this regards can be seen at <https://delhi.govtprocurement.com>

ISSUED BY P.R.O. (WATER) Sd/- (V. K. Chauhan)  
Advt. No. J.S.V. 475 (2022-23) EX. ENGINEER (T)-2

"Stop Corona; Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene"

## MIRAE ASSET

Mutual Fund

### NOTICE NO. AD/06/2023

#### Declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal under Mirae Asset Emerging Bluechip Fund ("The Scheme"):

NOTICE is hereby given that Mirae Asset Trustee Company Pvt. Ltd., Trustee to Mirae Asset Mutual Fund ("MAMF") have approved declaration of Income Distribution cum Capital Withdrawal (IDCW) under Mirae Asset Emerging Bluechip Fund (An open-ended equity scheme investing in both large cap and mid cap stocks) as under:

Scheme / Plan / Option	Quantum* (₹ per unit)	NAV as on February 02, 2023 (₹ per unit)	Record Date	Face Value (₹ per unit)
Mirae Asset Emerging Bluechip Fund - Regular Plan - Income Distribution cum capital withdrawal option:	3.50	40.292	February 07, 2023	10
Mirae Asset Emerging Bluechip Fund - Direct Plan - Income Distribution cum capital withdrawal option:	6.00	67.636		

\* subject to availability of distributable surplus as on the record date and as reduced by applicable statutory levy, if any.

**Pursuant to the payment of IDCW, the NAV of the IDCW option of the above-mentioned Plans of the Scheme will fall to the extent of payout and statutory levy (if applicable):**

Income distribution will be paid to those unitholders / beneficial owners whose names appear in the register of unit holders maintained by the Mutual Fund / statement of beneficial ownership maintained by the depositories, as applicable, under the IDCW option of the aforesaid plan as on the record date.

For and on behalf of the Board of Directors of  
**MIRAE ASSET INVESTMENT MANAGERS (INDIA) PVT. LTD.**  
(Asset Management Company for Mirae Asset Mutual Fund)

Place : Mumbai Sd/-  
Date : February 03, 2023 AUTHORISED SIGNATORY

MIRAE ASSET MUTUAL FUND (Investment Manager: Mirae Asset Investment Managers (India) Private Limited) (CIN: U65990MH2019PTC324629).  
Registered & Corporate Office: 606, Windsor, Off CST Road, Kalina, Santacruz (E), Mumbai - 400098.  
☎ 1800 2099 777 (Toll free), ✉ customercare@miraeasset.com 🌐 www.miraeassetmf.co.in

**Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.**

## AARTI INDUSTRIES LIMITED

Regd. Off.: Plot Nos.801, 801/23, Phase -III, G.I.D.C. Estate, Vapi-396195, Dist. Valsad, Gujarat  
Corp. Off.: 71, Udyog Kshetra, 2nd Floor, Mulund-Goregaon Link Road, Mulund (W), Mumbai- 400 080  
Website: www.aarti-industries.com; Email: investorrelations@aarti-industries.com; CIN: L24110GJ1984PLC007301

### AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31st DECEMBER, 2022

(₹ In Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Standalone			Consolidated								
		Quarter ended		9 Months Ended	Quarter ended		9 Months Ended	Year ended					
		31-Dec-22	30-Sep-22	31-Dec-21	31-Dec-21	31-Dec-21	31-Mar-22	31-Dec-21	31-Dec-21	31-Mar-22			
1	Total Income from Operations (Net)	1,63,498	1,68,592	2,05,542	4,92,618	4,62,620	6,04,087	1,66,796	1,68,503	2,07,625	4,96,365	4,64,943	6,08,628
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	15,923	15,159	80,860	47,767	1,19,424	1,36,580	15,989	15,041	80,907	47,591	1,19,957	1,37,215
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	15,923	15,159	80,860	47,767	1,19,424	1,36,580	15,989	15,041	80,907	47,591	1,19,957	1,37,215
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13,523	12,559	72,460	39,767	1,03,749	1,18,205	13,653	12,448	72,530	39,655	1,04,017	1,18,567
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	13,284	11,172	74,329	36,090	1,05,487	1,20,000	12,807	11,061	74,145	35,371	1,05,603	1,20,089
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of ₹ 5/- each)	18,125	18,125	18,125	18,125	18,125	18,125	18,125	18,125	18,125	18,125	18,125	18,125
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-	4,31,979	-	-	-	-	-	4,33,473
8	Net Worth	-	-	-	-	-	4,50,104	-	-	-	-	-	4,51,670
9	Earnings Per Share (of ₹ 5/- each) (for continuing and discontinued operations)	3.73	3.46	19.99	10.97	28.62	32.61	3.77	3.43	20.01	10.94	28.69	32.71
	1. Basic:	3.73	3.46	19.99	10.97	28.62	32.61	3.77	3.43	20.01	10.94	28.69	32.71
	2. Diluted:	3.73	3.46	19.99	10.97	28.62	32.61	3.77	3.43	20.01	10.94	28.69	32.71

Notes:-  
1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of Stock Exchange(s) viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and website of the Company i.e. www.aarti-industries.com

For AARTI INDUSTRIES LIMITED Sd/-  
RAJENDRA V. GOGRI  
CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR

Place: Mumbai Sd/-  
Date: February 3, 2023

## INTERGLOBE AVIATION LIMITED

CIN: L62100DL2004PLC129768

Registered Office: Upper Ground Floor, Thapar House, Gate No. 2,  
Western Wing, 124 Janpath, New Delhi – 110001, India  
Tel: +91 96500 98905; Fax: +91 11 4351 3200  
E-mail: [investors@goindigo.in](mailto:investors@goindigo.in); Website: [www.goindigo.in](http://www.goindigo.in)

### EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS AND UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2022

(Rupees in millions, except for share data and if otherwise stated)

S.No.	Particulars	Consolidated					
		Quarter ended		Nine Months ended		Year ended	
		31 December 2022	30 September 2022	31 December 2021	31 December 2022	31 December 2021	31 March 2022
1	Revenue from Operations	149,329.70	124,975.87	92,947.69	402,858.51	179,101.80	259,309.27
2	Total Income	154,102.01	128,522.86	94,800.78	412,812.94	184,490.63	266,565.25
3	Profit/ (Loss) for the period (before Tax and/or Exceptional items)	14,233.10	(15,832.81)	1,336.62	(12,242.14)	(44,761.73)	(61,536.84)
4	Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	14,233.10	(15,832.81)	1,336.62	(12,242.14)	(44,761.73)	(61,536.84)
5	Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	14,226.04	(15,833.34)	1,297.88	(12,249.91)	(44,800.47)	(61,618.45)
6	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	14,199.60	(15,802.02)	1,306.55	(12,167.53)	(44,812.73)	(61,607.80)
7	Equity share capital (face value of Rs. 10 each, fully paid)	3,854.75	3,854.35	3,851.91	3,854.75	3,851.91	3,852.55
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet						(63,733.17)
9	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (i) Basic (Rs.) (ii) Diluted (Rs.)	36.91 36.86	(41.09) (41.09)	3.37 3.36	(31.79) (31.79)	(116.35) (116.35)	(160.01) (160.01)

The information on unaudited standalone financial results are given below:

S.No.	Particulars	Standalone					
		Quarter ended		Nine Months ended		Year ended	
		31 December 2022	30 September 2022	31 December 2021	31 December 2022	31 December 2021	31 March 2022
1	Revenue from Operations	149,329.70	124,975.87	92,947.69	402,858.51	179,101.80	259,309.27
2	Total Income	154,087.04	128,515.58	94,798.76	412,789.16	184,482.94	266,554.69
3	Profit/ (Loss) for the period (before Tax and/or Exceptional items)	14,181.72	(15,854.85)	1,284.50	(12,327.36)	(44,912.35)	(61,710.25)
4	Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	14,181.72	(15,854.85)	1,284.50	(12,327.36)	(44,912.35)	(61,710.25)
5	Profit/ (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	14,181.72	(15,854.85)	1,284.50	(12,327.36)	(44,912.35)	(61,710.25)
6	Total Comprehensive Income / (Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	14,160.97	(15,823.08)	1,292.59	(12,236.11)	(44,920.70)	(61,680.60)
7	Equity share capital (face value of Rs. 10 each, fully paid)	3,854.75	3,854.35	3,851.91	3,854.75	3,851.91	3,852.55
8	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet						(64,205.47)
9	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (i) Basic (Rs.) (ii) Diluted (Rs.)	36.79 36.74	(41.14) (41.14)	3.33 3.33	(31.99) (31.99)	(116.64) (116.64)	(160.25) (160.25)

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of unaudited consolidated financial results and unaudited standalone financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2022, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "SEBI LODR Regulations"). The full format of the unaudited consolidated financial results and unaudited standalone financial results for the quarter and nine months ended 31 December 2022 is available on the website of the Company [www.goindigo.in](http://www.goindigo.in) and also at the website of the stock exchanges [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com). The results have been subjected to a limited review by the Statutory Auditors of the Company and its subsidiary (namely "Agile Airport Services Private Limited") [the Company and its subsidiary together referred to as, "the Group"] pursuant to Regulation 33 of the SEBI LODR Regulations, who have issued an unmodified conclusion on the same.
- The above results were reviewed by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at their respective meetings held on 3 February 2023.
- Earnings per share is not annualized for the quarter ended 31 December 2022, 30 September 2022 and 31 December 2021 and for the nine months ended 31 December 2022 and 31 December 2021.

For and on behalf of the Board of Directors  
of InterGlobe Aviation Limited  
Sd/-

Place : Gurugram  
Date : 3 February 2023

Rahul Bhatia  
Managing Director

This advertisement cum corrigendum is for information purposes only and neither constitutes an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities nor for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated January 18, 2023 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock Exchange, namely BSE Limited ("BSE") and with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to the proviso to Regulation 3 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations").



### FAMILY CARE HOSPITALS LIMITED

Corporate Identification Number: L93000MH1994PLC080842

Registered Office: Plot A-357, Road No. 26, Wagle Industrial Estate, MIDC, Thane (West) – 400604, Maharashtra, India.

Tel: +91 022-4184 2201; E-mail: [csscandent@gmail.com](mailto:csscandent@gmail.com); Website: [www.scandent.in](http://www.scandent.in);

Contact Person: Pandoo Naig, Managing Director | OUR PROMOTER: Gautam Deshpande

**NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF FAMILY CARE HOSPITALS LIMITED (THE "COMPANY")**  
RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED  
LAST DATE FOR RECEIPT OF RIGHTS ISSUE APPLICATION FORMS IS EXTENDED UPTO  
TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023\*

# Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.

\*# Our Rights Issue committee vide its meeting held on February 03, 2023 has extended the Issue period to Tuesday, February 21, 2023. The said extension period as stated above is within the applicable regulations prescribed in this regard in terms of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and Companies Act 2013.

ISSUE OF UPTO 4,07,67,000 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 12/- EACH INCLUDING SECURITIES PREMIUM OF ₹ 2/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹4892.04 LAKHS ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 127 RIGHTS EQUITY SHARE(S) FOR EVERY 100 FULLY PAID-UP EQUITY SHARE(S) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON TUESDAY, JANUARY 03, 2023 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS ₹ 12 WHICH IS 1.2 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 174 OF THE LETTER OF OFFER.

\*Assuming Full Subscription

ASBA*	Simple, Safe, Smart way of Application – Make use of it!!!	Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For details, check section on ASBA below.
-------	--	--

**Process of making an Application in the Issue**

In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Rights Issue Circulars and the ASBA Circulars, all investors desiring to make an application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process, who are holding the equity shares of our Company as on the record date i.e. **Tuesday, January 03, 2023**. Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA. For details, please see "Process of Making An Application In The Issue" on page 176 of the Letter of Offer.

Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date i.e., Tuesday, February 21, 2023 to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date. The Shareholder who failed to provide their demat details in the stipulated time then their rights entitlement shall lapse and shall not be eligible to apply in this issue.

Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company.

**ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO ARE ENTITLED TO APPLY FOR THE RIGHTS ISSUE ARE REQUESTED TO TAKE NOTE OF THE NEW ISSUE CLOSURE DATE AS FEBRUARY 21, 2022. ACCORDINGLY, THERE IS NO CHANGE IN THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, STATUTORY ADVERTISEMENT, ENTITLEMENT LETTER AND APPLICATION FORM, EXCEPT OF MODIFICATION IN THE ISSUE CLOSING DATE; RESULTANT CHANGE IN THE INDICATIVE TIME TABLE OF POST ISSUE ACTIVITIES ON ACCOUNT OF EXTENSION OF ISSUE CLOSING DATE.**

The Letter of Offer shall be read in conjunction with this Corrigendum and the Letter of Offer stands suitably modified to the extent of information set out above. The information in this Corrigendum supersedes the information in the Letter of Offer to the extent inconsistent with the information in the Letter of Offer.

All capitalised terms used in this Corrigendum shall unless the context otherwise requires, have the same meanings as ascribed in the Letter of Offer.

COMPANY	LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE
 <b>FAMILY CARE HOSPITALS LIMITED</b> Plot A-357, Road No. 26, Wagle Industrial Estate, MIDC, Thane (West) – 400604, Maharashtra, India. Telephone: +91 022-4184 2201 E-mail: <a href="mailto:csscandent@gmail.com">csscandent@gmail.com</a> Website: <a href="http://www.scandent.in">www.scandent.in</a> Contact Person : Pandoo Naig	 <b>FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED</b> 3rd Floor, B Wing, Jay Chambers, Dayaldas Road, Vile Parle (E), Mumbai - 400 057, Maharashtra, India Tel No.: +91 81049 85249 E-mail: <a href="mailto:mb@fedsec.in">mb@fedsec.in</a> Website: <a href="http://www.fedsec.in">www.fedsec.in</a> Contact Person: Radhika Maheshwari SEBI Registration Number: INM000010163 Investor Grievance E-Mail: <a href="mailto:mb@fedsec.in">mb@fedsec.in</a>	 <b>PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED</b> 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Borchia Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel (E), Mumbai – 400011, Maharashtra, India. Tel No: +91-22-2301 2518/6761; Fax No: NA Email: <a href="mailto:support@purvashare.com">support@purvashare.com</a> ; Contact Person: Deepali Dhuri; Website: <a href="http://www.purvashare.com">www.purvashare.com</a> SEBI Registration Number: INR00001112

The Letter of Offer shall be available on website of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in); the website of BSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com); website of the Company at [www.scandent.in](http://www.scandent.in) and the website of the Lead Manager [www.fedsec.in](http://www.fedsec.in). Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 22 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. The announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States. Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company for any pre-issue/post-issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SCSB, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SCSB where the application form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the investor.

For Family Care Hospitals Limited  
On behalf of Board of Directors

Date : February 03, 2023  
Place : Mumbai

Sd/-  
Pandoo Naig  
Managing Director



# कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत को पार्टी से किया निलंबित

जन्मसंज्ञा  
नई दिल्ली, 3 फरवरी

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर को कांग्रेस ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में शुक्रवार को कार्यवाही करते हुए निलंबित कर दिया। पार्टी ने इस बारे में कारण बताओ नोटिस जारी कर यह भी पूछा कि उन्हें निलंबित क्यों नहीं किया जाए।

अमरिंदर सिंह अब भाजपा में हैं। परनीत कौर, मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली संग्रह सरकार में विदेश राज्य मंत्री थीं। पार्टी की अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अनुशंसा पर कौर को निलंबित करने का फैसला किया।

समिति ने कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिन में यह बताने के लिए कहा है कि उन्हें पार्टी से निलंबित क्यों न किया जाए। अनुशासनात्मक कार्यवाही समिति के सदस्य सचिव तारिक अनवर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने शिकायत की थी कि कौर भाजपा की मदद करने के मकसद से पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलग्न हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी ऐसी ही शिकायत की थी। वर्ष 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले अमरिंदर सिंह ने अपनी अलग पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस (पीएलसी) का गठन किया था। कौर ने विधानसभा चुनाव में अपने पति का प्रचार भी किया था। अमरिंदर सिंह बीते साल सितंबर में अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। उन्होंने अपनी नवगठित पार्टी पीएलसी का भाजपा में विलय भी कर दिया था।



## T.V. TODAY NETWORK LIMITED

Regd Office: F-26, First Floor, Connaught Circus, New Delhi-110 001, CIN: L92200DL1999PLC103001  
Website: www.aajtak.in, Email: investors@ajtak.com, Telephone: 0120-4908600, Fax: 0120-4325028

### EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31<sup>st</sup> DECEMBER 2022

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter ended 31 <sup>st</sup> December 2022	Corresponding three months ended in the previous year 31 <sup>st</sup> December 2021	Nine months ended 31 <sup>st</sup> December 2022	Year ended 31 <sup>st</sup> March 2022	Quarter ended 31 <sup>st</sup> December 2022	Corresponding three months ended in the previous year 31 <sup>st</sup> December 2021	Nine months ended 31 <sup>st</sup> December 2022	Year ended 31 <sup>st</sup> March 2022
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total Income from Operations (Net)	231.31	257.97	661.09	930.10	231.31	257.97	661.09	930.10
2	Net Profit for the period (before Tax and Exceptional Items)	38.17	82.70	112.38	243.54	38.01	82.58	112.09	243.33
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional Items)	38.17	82.70	112.38	243.54	38.01	82.58	112.09	243.33
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional Items)	27.78	61.62	82.68	181.72	27.62	61.50	82.39	181.51
5	Total Comprehensive Income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax))	27.76	61.74	82.67	182.40	27.60	61.46	82.38	182.19
6	Equity Share Capital (Face value of Rs. 5/- per share)	29.83	29.83	29.83	29.83	29.83	29.83	29.83	29.83
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Balance Sheet of the previous year	-	-	-	1128.15	-	-	-	1127.95
8	Earning Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations)- (a) Basic (in Rs.) (b) Diluted (in Rs.)	4.66 4.66	10.33 10.33	13.86 13.86	30.46 30.46	4.63 4.63	10.31 10.31	13.81 13.81	30.42 30.42

**Note:**

- The above is an extract of the detailed format of Quarter and nine months ended December 31, 2022 financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Quarter and nine months ended December 31, 2022 financial results are available on the website of BSE (www.bseindia.com) and NSE (www.nseindia.com) and Company's website (www.aajtak.in)
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors of the Company at their respective meetings held on February 03, 2023
- The Board of Directors at their meeting held on February 03, 2023 declared Interim Dividend of Rs. 67 per share of Rs.5 each for the Financial Year ending March 31, 2023

For and on behalf of the Board of Directors of T.V. Today Network Limited

Aroon Purie

Chairman and Whole Time Director  
DIN: 00002794

Date: February 03, 2023

## कैन फिन होम्स लि.

CIN No. L85110KA1987TLC008699 # डीओएर बिल्डिंग, प्रथम तल, नियर पार्स सिनेमा, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019 फोन : 011-26435815, 2643023, 011-26487529, 7625079108 ईमेल: delhi@canfinhomes.com

कच्चा सूचना (नियम 8 (1) (ब) अधिनियम के तहत)

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरों ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित वित्तीय आंकड़ों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में कैन फिन होम्स लिमिटेड का अधिकृत अधिकारी होने के नाते निम्नलिखित कर्जदार(रों) / सह-कर्जदार(रों) / जमानतियों से कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर अंतिम भुगतान की तिथि व्यक्त सहित सूचनाओं में उल्लिखित राशि का पुनर्भुगतान करने के लिए कहते हुए निम्नलिखित तिथियों पर एक मांग सूचना जारी की थी।

कर्जदारों तथा जमानतियों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्द्वारा विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरों ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में प्रत्येक कर्जदार के सम्बन्ध में निचे वर्णित सम्पत्ति पर कच्चा नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर कच्चा कर लिया है।

प्रतिभूति आंकड़ों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समग्र-सौमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है। विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य एतद्द्वारा निम्नलिखित सम्पत्तियों के साथ किसी प्रकार का संयवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संयवहार पूर्ण भुगतान की तिथि तक भावी व्याज सहित प्रत्येक सम्पत्ति के सम्बन्ध उल्लिखित राशि के लिए कैन फिन होम्स लिमिटेड, फ्रीडोमवाड शाखा के प्रभार का विषय होगा।

क्र. सं.	ऋणियों एवं गारंटियों के नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कच्चा सूचना	बकाया राशि
1.	श्री राज कुमार पुत्र नरेश चंद्र शर्मा, श्रीमती कुमकुम लता पत्नी राज कुमार	संपत्ति-1: प्लॉट नंबर-38, फ्लैट नंबर ए-2, दूसरी मंजिल, आरएनएस, अवतिका एक्सटेंशन-2, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002 (850 वर्ग फीट का क्षेत्रफल) उत्तर: प्लॉट संख्या-जीडी-24 दक्षिण: रोड पूर्व: फ्लैट नंबर-ए-1 और प्लॉट नंबर-जीडी-37 पश्चिम: मेन रोड संपत्ति-2: हाउस नंबर 31, गली नंबर-3, प्रताप नगर, पुलिस लाइन के पास, इरवस्त, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 (70.65 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल) उत्तर: सड़क दक्षिण: अन्य संपत्ति पूर्व: प्लॉट नंबर-32 पश्चिम: प्लॉट नंबर-30	07.11.2022	31.01.2023	₹. 33,26,906/- ₹. 20,08,580/- ₹. 53,35,486/-
2.	श्रीमती अंशुल गर्ग पत्नी अभिषेक गर्ग, श्री अभिषेक गर्ग पुत्र शम्भू प्रसाद, श्री रौलेन्द्र कुमार पुत्र राजकुमार गर्ग	प्लॉट नंबर-एसएफ-2, प्लॉट नंबर बी-69, दुसरी मंजिल, एसएलएफ वेद विहार, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (1.55.74 वर्ग मीटर का मांग) उत्तर: प्लॉट नंबर बी-60 दक्षिण: प्लॉट नंबर एसएफ-1 पूर्व: सड़क पश्चिम: पैसेज और प्लॉट नंबर-एसएफ-3	07.11.2022	31.01.2023	₹. 8,45,225/-

दिनांक : 04 / 02 / 2023  
स्थान : दिल्ली

## कैन फिन होम्स लिमिटेड

जीपी-11, प्रथम तल, लोक सोलिंग कॉम्प्लेक्स, केनार बिल्डिंग के ऊपर, पीतम्पुरा, दिल्ली-110034, फोन : 011-41761717 मो : 7625079150 E-mail: pitampura@canfinhomes.com CIN:L85110KA198PLC008699

[नियम 8(1) पर्याय कच्चा सूचना (अचल सम्पत्तियों के तहत)]

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरों ने कैन फिन होम्स लिमिटेड, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आंकड़ों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना दिनांकित 01.08.2022 को जारी की थी जिसमें कर्जदार (1) श्रीमती रेखा रानी पत्नी श्री राजेश कुमार (2) श्री राजेश कुमार पुत्र श्री टीका राम, वर्तमान निवासी प्लॉट सं. 1 / 3142 उपरी मूलत, खरसा सं. 609, राम नगर एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली-110051 से सूचना में वर्णितभुगतान बकाया राशि ₹. 12,78,143/- (रुपये बार लाख अठारह हजार एक सौ तिरासिस मात्र) तथा ₹. 4,74,021/- (रुपये चार लाख चौहत्तर हजार इकतीस मात्र) तथा उस पर 01/08/2022 से आगे व्याज, व्यव तथा अन्य प्रभारों के साथ, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिन के भीतर, चुकाने को मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरों ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कच्चा दिनांक 30.01.2023 को प्राप्त कर लिया है। विशेष रूप से कर्जदार / रों, गारंटियों / रों को तथा सामान्य रूप से जनसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संयवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संयवहार कैन फिन होम्स लिमिटेड, की बकाया राशि ₹. 12,78,143/- (रुपये बार लाख अठारह हजार एक सौ तिरासिस मात्र) तथा ₹. 4,74,021/- (रुपये चार लाख चौहत्तर हजार इकतीस मात्र) तथा आगे व्याज, व्यव तथा अन्य प्रभारों के साथ, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर, चुकाने को मांग की गई थी।

क्र. सं.	ऋणियों एवं गारंटियों के नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कच्चा सूचना	बकाया राशि
1.	श्री राज कुमार पुत्र नरेश चंद्र शर्मा, श्रीमती कुमकुम लता पत्नी राज कुमार	संपत्ति-1: प्लॉट नंबर-38, फ्लैट नंबर ए-2, दूसरी मंजिल, आरएनएस, अवतिका एक्सटेंशन-2, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002 (850 वर्ग फीट का क्षेत्रफल) उत्तर: प्लॉट संख्या-जीडी-24 दक्षिण: रोड पूर्व: फ्लैट नंबर-ए-1 और प्लॉट नंबर-जीडी-37 पश्चिम: मेन रोड संपत्ति-2: हाउस नंबर 31, गली नंबर-3, प्रताप नगर, पुलिस लाइन के पास, इरवस्त, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 (70.65 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल) उत्तर: सड़क दक्षिण: अन्य संपत्ति पूर्व: प्लॉट नंबर-32 पश्चिम: प्लॉट नंबर-30	07.11.2022	31.01.2023	₹. 33,26,906/- ₹. 20,08,580/- ₹. 53,35,486/-
2.	श्रीमती अंशुल गर्ग पत्नी अभिषेक गर्ग, श्री अभिषेक गर्ग पुत्र शम्भू प्रसाद, श्री रौलेन्द्र कुमार पुत्र राजकुमार गर्ग	प्लॉट नंबर-एसएफ-2, प्लॉट नंबर बी-69, दुसरी मंजिल, एसएलएफ वेद विहार, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (1.55.74 वर्ग मीटर का मांग) उत्तर: प्लॉट नंबर बी-60 दक्षिण: प्लॉट नंबर एसएफ-1 पूर्व: सड़क पश्चिम: पैसेज और प्लॉट नंबर-एसएफ-3	07.11.2022	31.01.2023	₹. 8,45,225/-

दिनांक : 04 / 02 / 2023  
स्थान : दिल्ली

## कच्चा सूचना (अचल सम्पत्तियों के लिये) नियम 8(1) देखें

जैसा कि, वित्तीय परिप्रेक्ष्यियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत लक्ष्य बैंक लि: के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरों ने मांग सूचना तिथि 14.02.2022 जारी कर ऋणधारकों:

क्र. सं.	ऋणियों एवं गारंटियों के नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कच्चा सूचना	बकाया राशि
1.	श्री परशुराम तिवारी: फ्लैट नं. 12 (एमआईजी), 2रा तल: प्लॉट नं. 74, विक्रम एन्क्लेव, साहिबवादा, गाजियाबाद, उ.प्र.-201005, साथ ही: फ्लैट नं. 619, पकिट डी, दूसरा तल, दिवशाद गार्डन, दिल्ली 110095	संपत्ति-1: प्लॉट नंबर-38, फ्लैट नंबर ए-2, दूसरी मंजिल, आरएनएस, अवतिका एक्सटेंशन-2, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002 (850 वर्ग फीट का क्षेत्रफल) उत्तर: प्लॉट संख्या-जीडी-24 दक्षिण: रोड पूर्व: फ्लैट नंबर-ए-1 और प्लॉट नंबर-जीडी-37 पश्चिम: मेन रोड संपत्ति-2: हाउस नंबर 31, गली नंबर-3, प्रताप नगर, पुलिस लाइन के पास, इरवस्त, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 (70.65 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल) उत्तर: सड़क दक्षिण: अन्य संपत्ति पूर्व: प्लॉट नंबर-32 पश्चिम: प्लॉट नंबर-30	07.11.2022	31.01.2023	₹. 33,26,906/- ₹. 20,08,580/- ₹. 53,35,486/-
2.	श्रीमती रेणु तिवारी, फ्लैट नं. 12 (एमआईजी), 2रा तल: प्लॉट नं. 74, विक्रम एन्क्लेव, साहिबवादा, गाजियाबाद, उ.प्र.-201005, साथ ही: फ्लैट नं. 619, पकिट डी, दूसरा तल, दिवशाद गार्डन, दिल्ली 110095	संपत्ति-1: प्लॉट नंबर-38, फ्लैट नंबर ए-2, दूसरी मंजिल, आरएनएस, अवतिका एक्सटेंशन-2, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002 (850 वर्ग फीट का क्षेत्रफल) उत्तर: प्लॉट संख्या-जीडी-24 दक्षिण: रोड पूर्व: फ्लैट नंबर-ए-1 और प्लॉट नंबर-जीडी-37 पश्चिम: मेन रोड संपत्ति-2: हाउस नंबर 31, गली नंबर-3, प्रताप नगर, पुलिस लाइन के पास, इरवस्त, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 (70.65 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल) उत्तर: सड़क दक्षिण: अन्य संपत्ति पूर्व: प्लॉट नंबर-32 पश्चिम: प्लॉट नंबर-30	07.11.2022	31.01.2023	₹. 33,26,906/- ₹. 20,08,580/- ₹. 53,35,486/-

को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 31.01.2022 को ₹. 11,20,038.34 (₹. ग्यारह लाख बीस हजार अठ्ठीस पैसे चौरस मात्र) के साथ आगे का व्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था। ऋणधारक-सह-ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक / सह-ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 2 फरवरी, 2023 को अधोहस्ताक्षरों ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरों ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कच्चा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय 31.01.2023 तक नहीं करें तथा सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय 31.01.2023 को ₹. 11,20,038.34 (₹. ग्यारह लाख बीस हजार अठ्ठीस पैसे चौरस मात्र) तथा अन्य चार्जों के लिये धनलक्ष्मी बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रभूत परिसम्पत्तियों को विनिर्मित करने के लिए उपलब्ध समग्र के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्र. सं.	ऋणियों एवं गारंटियों के नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कच्चा सूचना	बकाया राशि
1.	श्रीमती रेणु तिवारी के नाम से फ्लैट नं. 12 (एमआईजी), 2रा तल, प्लॉट नं. 74, विक्रम एन्क्लेव, साहिबवादा, गाजियाबाद, उ.प्र.-201005	संपत्ति-1: प्लॉट नंबर-38, फ्लैट नंबर ए-2, दूसरी मंजिल, आरएनएस, अवतिका एक्सटेंशन-2, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002 (850 वर्ग फीट का क्षेत्रफल) उत्तर: प्लॉट संख्या-जीडी-24 दक्षिण: रोड पूर्व: फ्लैट नंबर-ए-1 और प्लॉट नंबर-जीडी-37 पश्चिम: मेन रोड संपत्ति-2: हाउस नंबर 31, गली नंबर-3, प्रताप नगर, पुलिस लाइन के पास, इरवस्त, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 (70.65 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल) उत्तर: सड़क दक्षिण: अन्य संपत्ति पूर्व: प्लॉट नंबर-32 पश्चिम: प्लॉट नंबर-30	07.11.2022	31.01.2023	₹. 33,26,906/- ₹. 20,08,580/- ₹. 53,35,486/-
2.	श्रीमती रेणु तिवारी के नाम से फ्लैट नं. 12 (एमआईजी), 2रा तल, प्लॉट नं. 74, विक्रम एन्क्लेव, साहिबवादा, गाजियाबाद, उ.प्र.-201005	संपत्ति-1: प्लॉट नंबर-38, फ्लैट नंबर ए-2, दूसरी मंजिल, आरएनएस, अवतिका एक्सटेंशन-2, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002 (850 वर्ग फीट का क्षेत्रफल) उत्तर: प्लॉट संख्या-जीडी-24 दक्षिण: रोड पूर्व: फ्लैट नंबर-ए-1 और प्लॉट नंबर-जीडी-37 पश्चिम: मेन रोड संपत्ति-2: हाउस नंबर 31, गली नंबर-3, प्रताप नगर, पुलिस लाइन के पास, इरवस्त, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 (70.65 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल) उत्तर: सड़क दक्षिण: अन्य संपत्ति पूर्व: प्लॉट नंबर-32 पश्चिम: प्लॉट नंबर-30	07.11.2022	31.01.2023	₹. 33,26,906/- ₹. 20,08,580/- ₹. 53,35,486/-

दिनांक : 02.02.2023  
स्थान : नई दिल्ली

## टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: 11वां तल, टावर ए, पेनिंग्टन बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर पैरे, मुंबई-400013, सौदाहरण नं. 587100एएमए2008पीएलसी187562

### अधिग्रहण सूचना (अचल सम्पत्तियों हेतु)

(प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमवली 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिप्रेक्ष्य IV के अनुसार)

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरों ने टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिप्रेक्ष्यियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमवली 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत एक मांग सूचना, निम्न वर्णितभुगतान नित की थी, जिसमें ऋणधारकों को सूचना में अंकित राशि का, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर, प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। ऋणधारकों विनिर्मित देयता का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋणधारकों को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरों ने यहां इतने दिनों विनिर्मित सम्पत्ति का, उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के अंदर, प्रतिभुगतान कर लिया है। ऋणधारकों को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन-देन न करे तथा सम्पत्ति का कोई भी प्रकार का लेन-देन, यहां इतने दिनों संपत्ति पर राशि तथा निम्नलिखित शिथि से इस राशि पर आवृत्ति व्याज एवं अंतरा व्याज, शुल्कों, लागतों, इत्यादि हेतु टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभारभी होगा। ऋणधारकों का ध्यानकृत प्रतिभूतिकरण परिसम्पत्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समग्र के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आग्राहित किया जाता है।

क्र. सं.	ऋणियों एवं गारंटियों के नाम	बंधक सम्पत्तियों का विवरण	मांग सूचना की तिथि	कच्चा सूचना	बकाया राशि
10625307	स्वर्गीय अश्विनी जैन, अपने विधिक उत्तराधिकारियों के माध्यम से (उत्तराधिकार के रूप में) और श्रीमती पूजा जैन पत्नी स्वर्गीय अश्विनी जैन (सह-उत्तराधिकार/विधिक उत्तराधिकारी), सुशी कथिरा जैन पुत्री स्व अश्विनी जैन (विधिक उत्तराधिकारी) और श्री कार्तिक जैन पुत्र स्वर्गीय अश्विनी जैन (विधिक उत्तराधिकारी)	संपत्ति-1: प्लॉट नंबर-38, फ्लैट नंबर ए-2, दूसरी मंजिल, आरएनएस, अवतिका एक्सटेंशन-2, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002 (850 वर्ग फीट का क्षेत्रफल) उत्तर: प्लॉट संख्या-जीडी-24 दक्षिण: रोड पूर्व: फ्लैट नंबर-ए-1 और प्लॉट नंबर-जीडी-37 पश्चिम: मेन रोड संपत्ति-2: हाउस नंबर 31, गली नंबर-3, प्रताप नगर, पुलिस लाइन के पास, इरवस्त, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201001 (70.65 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल) उत्तर: सड़क दक्षिण: अन्य संपत्ति पूर्व: प्लॉट नंबर-32 पश्चिम: प्लॉट नंबर-30	07.11.2022	31.01.2023	₹. 61,55,303/- (रुपये इकरसठ लाख पचपन हजार तीन सौ तीन मात्र)

प्रतिभूति परिप्रेक्ष्यियों /अचल सम्पत्तियों /बंधकवस्तु संपत्तियों का विवरण : संपत्ति के सम्बन्ध में मांग तथा अंश जो वृत्तीय तल (नम तक इसके छांटाकारों के साथ) के पूर्वी छोर के क्षेत्र 16 मीटर के रूप में विद्यमान, क्षेत्रविमान 156 वर्ग मीटर अर्थात् 130.42 वर्ग मीटर, जो स्वामित्वारक निर्मित संपत्ति संए-1 का भाग है जिसका निर्माण कुल मू क्षेत्र माप 311 वर्ग मीटर अर्थात् 280 वर्ग मीटर पर हुआ है जो सदावर नगर, दिल्ली 110009 में स्थित तथा इस प्रकार परिमित है: पूर्व- सर्विस लेन, पश्चिम- उक्त संपत्ति का शेष भाग, उत्तर- सर्विस लेन, दक्षिण- सड़क।

दिनांक : 04-02-2023  
स्थान : दिल्ली

हस्ता / - प्राधिकृत अधिकारी  
कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

**दिल्ली जल बोर्ड: रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार**  
कार्यालय: अति. मुख्य अभियंता (एम)-2  
2142 जनता प्लैट्स, जी.टी.बी. एन्क्लेव, दिल्ली-110093

प्रैस एनआईटी सं. 69 (2022-23)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	निविदा की तिथि	ई-प्रस्ताव संश्लेषण के माध्यम से निविदा प्रारंभ की तिथि	ई-प्रस्ताव संश्लेषण के माध्यम से निविदा प्रारंभ की तिथि
1.	पानी (एम)-2 के जलाने के लिये नगर क्षेत्रीयस्तर पर एक-दो की वितरण प्रणाली के रखरखाव के लिये अनुबंध आरार पर एक वर्ष के लिये 10 नग अ-कृतल कॉन्ट्रैक्ट की पूर्ति।	मद पर	3.2.2023 2023_DJB_235983_1	18.2.2023 के 2.10 वर्ष आ. में।

इस सर्वे में अधिक विवरण केवलतः <https://govprocurement.dhja.gov.in> पर देखें।

हस्ता / -  
पी.आर.ओ. (जन) इला नाथ  
विद्य. सं. नै.ए.सं.बी. 475 (2022-23)

कार्यालय अभियंता (टी)-2  
"कोरोना रोकें; मास्क पहनें; शारीरिक दूरी का पालन करें; हाथों को स्वच्छ रखें"



# रोज वाचा दै. 'मुंबई लक्षदीप'

**नमुना क्र. ११**  
**जाहिरातीचा नमुना**  
(पहा नियम १११(१))

**मेटको कलर्स (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेड**  
(सदस्यांचे ऐच्छिक कारभार बंद करणे)

**सधेची सूचना**

सधेची सूचना देण्यात येत आहे की, वरील प्रकरणात अंदादाता/भागधारकांची सभा ३ मार्च, २०२३ रोजी स.११.०० वा. युनिट क्र. ८६, ३रा मजला, रत्नन्यते इंडस्ट्रीयल इस्टेट, इला लेन, विलेपार्ले (प.), मुंबई-४०००५६ येथे होणार आहे.

**अजेंडा:**  
कंपनी कायदा १९५६ चे कलम ४९६ च्या तरतुदीनुसार परिसमापनाचे प्रक्रिया व प्रक्रिया संदर्भात विहित तपशिल समाविष्ट विहित अहवालासह एकत्रित मार्गाले वर अर्थात १३ डिसेंबर, २०२१ ते १२ डिसेंबर, २०२२ दरम्यान कारभार बंद करण्याचे संचालन आणि कारवाई व व्यवहाराचे खाते मागणे.  
प्रॉक्सी नमुना परिसमापनाच्या कार्यविधान उल्लेख आहे.  
सभेत वापरण्यात येणारे प्रॉक्सी हे परिसमापनाकडे १ मार्च, २०२३ रोजी स.११.०० वा. पर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे.  
आज दिनांकीत ३ फेब्रुवारी, २०२३ संस्य संगती अंतर्गत कंपनीकरिता

**कंपनी सचिव**  
सही/-  
संजय संगती (मालक)  
(परिसमापक)

पत्ता: युनिट क्र. ८६, ३रा मजला, रत्नन्यते इंडस्ट्रीयल इस्टेट, इला लेन, विलेपार्ले (प.), मुंबई-४०००५६

**तिलक व्हेन्चर्स लिमिटेड**

नोंदणीकृत कार्यालय: ई/१०९, क्रिस्टल प्लाझा, न्यू लिंक रोड, इन्फिनीटी मॉलमोर, अंधेरी (प.), मुंबई-४०००४९. वेबसाईट: <https://www.tilakfinance.wordpress.com>  
ई-मेल: [tilakfin@gmail.com](mailto:tilakfin@gmail.com), सीआयएस-एल६९१०एमएच१९८०पीएलसी०२३०००

अंशतः भरणा केलेले समभाग धारकांचे लक्ष वेधण्यासाठी अंतिम स्मरण सूचना (रकम जमा करण्याची अंतिम तारीख - बुधवार, २२ फेब्रुवारी, २०२३)

१. कंपनीच्या संचालक मंडळाने २८ जानेवारी, २०२३ रोजी झालेल्या सभेत अंशतः भरणा केलेले समभाग धारकांना अंतिम स्मरण सूचना जारी करण्यास मान्यता दिली ज्यांनी अद्याप प्रथम आणि अंतिम कॉल मनी कॉलचे पैसे दिले नाहीत.

२. कंपनीने २८ जानेवारी, २०२३ रोजीचे पहिले स्मरणपत्र सूचना अंशतः भरणा केलेले समभाग धारकांना पाठवली आहे ज्यांनी अद्याप पैसे दिले नाहीत.

३. कंपनीच्या अंशतः भरणा केलेले समभाग धारक हे लक्षात घेऊन गळतात की, २२ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी किंवा त्यापूर्वी कॉलचे पैसे भरण्यात अयशस्वी झाल्यास कंपनीच्या ऑर्टिकल ऑफ असोसिएशनच्या तरतुदीनुसार आणि १८ फेब्रुवारी, २०२२ च्या प्रस्ताव पत्रानुसार कंपनीचे अंशतः भरणा केलेले समभाग (आधीच भरलेल्या रकमेसह) जमा करण्यास जबाबदार आहे.

४. सूचना आणि जमा केलेल्याचा पावतीसह अंतिम स्मरण सूचना <https://tilakfinance.wordpress.com> वरून डाउनलोड करता येईल.

५. घनादा/डिमांड ड्राफ्ट सादर करून कॉल मनी जमा केले जाऊ शकते आणि रिव्ह्यू आणि ट्रायब्युनल एंडोअरमेंट लिंक इनडिया प्रायव्हेट लिमिटेड, सी-१०९, १ला मजला, २४५ पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विक्रोळी (पश्चिम), मुंबई-४०००८३ येथे बुधवार, २२ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी साय.५.०० वा. (भायचे) किंवा त्यापूर्वी पाठवू शकतात.

६. कृपया रकम जमा करण्यापूर्वी अंतिम स्मरणपत्र दिलेल्या सूचना वाचा.

७. कंपनीच्या अंशतः भरणा केलेले समभाग धारकांना +९१-९८०९१४९९९९ (सोमवार ते शनिवार स.१०-०० वा. (भायचे) ते सायंकाळी ६.०० वा.) (भायचे) दरम्यान कार्यरत असतील व कॉल मनीच्या रकम जमा केल्या संपूर्ण कोणत्याही प्रश्नांवर स्पष्टीकरण मागू शकतात.

८. ही अंतिम स्मरण सूचना केवळ अंशतः भरणा केलेले समभाग धारकांना कॉल मनी भरण्यासाठी आहे ज्यांनी अद्याप कॉलचे पैसे दिले नाहीत. या सूचनेमध्ये कंपनीच्या कोणत्याही सिक्स्युरिटीजची खरेदी किंवा विक्री करण्याची प्रस्ताव किंवा विनंती नाही.

तिलक व्हेन्चर्स लिमिटेडकरिता  
सही/-  
रेवेंडू कुमार  
दिनांक: ०३.०२.२०२३  
दिवाना: मुंबई  
कंपनी सचिव व सक्षम अधिकारी

# रोज वाचा दै. 'मुंबई लक्षदीप'

**जीसी व्हॅचर्स लिमिटेड**  
(सीआयएस - एल२४२४९एमएच१९८४पीएलसी०३२१७०)

नों. कार्यालय: २०९-२१०, २रा मजला, आर्केडिया बिल्डिंग, ११५, नर्मिन पॉईंट, मुंबई-४०० ०२१.  
फोन: ९१-२२-६६७०८६००, फॅक्स: ९१-२२-६६७०८६५०. ई-मेल आयडी: [geecae.investor@gov.in](mailto:geecae.investor@gov.in); वेबसाईट: [www.geecaeventures.com](http://www.geecaeventures.com)

**३१ डिसेंबर, २०२२ रोजी संपलेल्या तिमाही आणि नऊमाहीचे संक्षिप्त स्वतंत्र आणि एकत्रित अलेखापरिहित वित्तीय निष्कर्ष**  
(प्रति समभाग मासिकी वित्तिरिक्त रु. लाखात)

तपशील	स्वतंत्र			एकत्रित		
	संपलेले तिमाही	संपलेले नऊमाही	संपलेले तिमाही	संपलेले तिमाही	संपलेले नऊमाही	संपलेले तिमाही
कारभाराद्वारे एकूण उत्पन्न (निव्वळ)	७२४.२१	४,७५४.८९	६,७३०.६५	८१०.७३	५,००८.८०	६,८५१.३१
कालावधीसाठी निव्वळ नफा/(तोटा) (कर, अपवादालयक आणि/किंवा असाधारण बाबींपूर्वी)	१८७.३७	२,६३१.७७	१,३३७.८१	२६१.६९	२,८४८.८५	१,४५१.१४
कालावधीसाठी करपूर्व निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादालयक आणि/किंवा असाधारण बाबींनंतर)	१८७.३७	२,६३१.७७	१,३३७.८१	२६१.६९	२,८४८.८५	१,४५१.१४
कालावधीसाठी करनंतर निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादालयक आणि/किंवा असाधारण बाबींनंतर)	१५८.२९	२,१५९.७१	१,०९६.९३	२१३.१६	२,२६८.२३	१,१२०.८२
कालावधीसाठी एकूण सर्वसमावेशक उत्पन्न [कालावधीसाठी करपश्चात नफा/(तोटा) आणि करपश्चात इतर सर्वसमावेशक उत्पन्नासहिल]	६१८.९५	४,०९७.९२	१,२०७.९६	७३२.२८	४,२९१.९९	१,९६२.७०
समभाग भांडवल	२,०९१.९७	२,०९१.९७	२,०९१.९७	२,०९१.९७	२,०९१.९७	२,०९१.९७
राखीव निधी (मागील वर्षाच्या लेखा-परिहित ताळेबंदात दर्शविल्याप्रमाणे पुनर्मुल्यांकित राखीव निधी वगळून)	-	-	-	-	-	-
प्रतिभागावर मिळत (₹ १०/- प्रमाणे) (अखंडित आणि खंडित परिचालनकरिता) अनन्यसाधारण बाबींनंतर						
१. मूलभूत:	०.७६	१०.३३	४.८६	१.०२	१०.८५	५.३७
२. सौम्यिकृत:	०.७६	१०.३३	४.८६	१.०२	१०.८५	५.३७

**टिपा:**

(क) वरील वित्तीय निष्कर्ष हे ३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी झालेल्या त्यांच्या सभेत लेखापरिक्षण समितीद्वारे पुनर्वितीरित करण्यात आले आणि ३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी झालेल्या संचालक मंडळाद्वारे मंजूर करण्यात आले.

(ख) वरील निष्कर्ष कंपनी अधिनियम, २०१३ च्या कलम १३३ अंतर्गत विहित इंडियन अकाउंटिंग स्टॅण्डर्ड्स (इंडियन अकाउंटिंग स्टॅण्डर्ड्स) सहाय्यात कंपनीचा (इंडियन अकाउंटिंग स्टॅण्डर्ड्स) रूल्स, २०१५ चा नियम ३ आणि कंपनीचा (इंडियन अकाउंटिंग स्टॅण्डर्ड्स) (अमेडमेंट रूल्स), २०१६ च्या अनुषंगाने बनवले आहेत.

(घ) सेबी (लिस्टिंग) ऑफ अवर डिस्कलोजर रिक्वायर्समेंट्स) रेग्युलेशन २०१५ च्या रेग्युलेशन ३३ अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजला दाखल केलेल्या ३१ डिसेंबर, २०२२ रोजी संपलेल्या तिमाही आणि नऊमाहीचे वित्तीय निष्कर्षांच्या तपशिलांवर विवरणाचा वरील एक उदाहरण आहे. तिमाही वित्तीय निष्कर्षांचे संपूर्ण विवरण स्टॉक एक्सचेंज बीएसई लिमिटेड ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com)) किंवा नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ([www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) वर आणि कंपनीची वेबसाईट ([www.geecaeventures.com](http://www.geecaeventures.com)) वर सुद्धा उपलब्ध आहे.

जीसी व्हॅचर्स लिमिटेड करिता  
सही/-  
श्री सुरेशकुमार वासुदेवन वाझहयारा पिअर्ड  
पूर्ण वेळ संचालक  
(सीआयएस - ०००५३८५९)

दिवाना: मुंबई  
दिनांक: ३ फेब्रुवारी २०२३

# मन इन्फ्राकन्स्ट्रक्शन लिमिटेड

नोंदणीकृत कार्यालय: १२वा मजला, कुशल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, जी.एम.रोड, चेंबूर (पश्चिम), मुंबई-४०००८९. दूरध्वनी: +९१-२२-४२४६३९९९, फॅक्स: +९१-२२-२५२९५८९, वेबसाईट: [www.maninfra.com](http://www.maninfra.com), ई-मेल: [investors@maninfra.com](mailto:investors@maninfra.com)

## ३१ डिसेंबर, २०२२ रोजी संपलेल्या तिमाही व नऊमाहीकरिता एकत्रित अलेखापरिहित वित्तीय निष्कर्षांचा अहवाल

अ. क्र.	तपशील	संपलेली तिमाही	संपलेली तिमाही	संपलेली तिमाही	संपलेली तिमाही	संपलेली तिमाही	संपलेली वर्ष
१	कार्यचलनातून एकूण उत्पन्न (निव्वळ)	४७१७७.६६	४१३९१.३४	३०४०८.३४	१२४५७१.९७	८८७६६.४७	११६२६५.४९
२	कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा) (कर, अपवादालयक आणि/किंवा विशेष साधारण बाबपूर्वी)	१२६६६.५०	८९९०.५८	३९०९.७९	२७४५८.६४	३२९३८.५५	३७८८८.८८
३	करपूर्व कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादालयक आणि/किंवा विशेष साधारण बाबनंतर)	१२६६६.५०	८९९०.५८	३९०९.७९	२७४५८.६४	३२९३८.५५	३७८८८.८८
४	कर व ना-नियंत्रित व्याजानंतर कालावधीकरिता निव्वळ नफा/(तोटा) (अपवादालयक आणि/किंवा विशेष साधारण बाबनंतर)	८४७७.४९	५३२८.००	३४८१.३०	१८७६९.९६	१८७६९.९६	२१६३५.४४
५	कालावधीकरिता एकूण सर्वकथ उत्पन्न (कालावधीकरिता सर्वकथ नफा/(तोटा) (कर व ना-नियंत्रित व्याजानंतर) आणि इतर सर्वकथ उत्पन्न (करानंतर))	८५०२.७४	५४७९.९५	३४३०.६८	१८९९८.३६	१८७६९.९६	२१५४८.७९
६	समभाग भांडवल (दरिनी मुल्य रु.२/- प्रती भाग)	७४२५.०९	७४२५.०९	४९५०.०९	७४२५.०९	४९५०.०९	७४२५.०९
७	उत्पन्न प्रतिभाग (रु.२/- प्रत्येकी) (खंडीत व अखंडीत कार्यचलनासाठी) (वार्षिकीकरण नाही)	२.२८	१.४३	०.९४	४.७६	४.८२	५.८३
अ. मूळ (रु.)	२.२८	१.४३	०.९४	४.७६	४.८२	५.८३	
ब. सॉम्यिकृत (रु.)	२.२८	१.४३	०.९४	४.७६	४.८२	५.८३	

**टिपा:**

१. वरील निष्कर्षांचे लेखासमितीद्वारे पुनर्वितीरित करण्यात आले आणि दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी झालेल्या मंडळाच्या सभेत मान्य करण्यात आले. एकत्रित वित्तीय निष्कर्ष हे कंपनी कायदा २०१३ च्या कलम १३३ अन्वये विहितप्रमाणे भारतीय लेखाप्रमाण (इंडियन) नुसार तयार केले आहे.

२. संचालक मंडळाने १० नोव्हेंबर, २०२२ रोजी झालेल्या सभेत वित्तीय वर्ष २०२२-२३ करिता रु.०.९० समभागाचा अंतिम लाभांश घोषित केला व देण्यात आला.

३. सेबी (लिस्टिंग) ऑफ इंडिया डिस्कलोजर रिक्वायर्समेंट्स) रेग्युलेशन २०१५ च्या नियम ३३ अन्वये स्टॉक एक्सचेंजसह सादर करण्यात आलेली तिमाही व नऊमाहीकरिता वित्तीय निष्कर्षांचे स्विकार नमुन्यातील उतरा आहे. तिमाही व नऊमाहीकरिता वित्तीय निष्कर्षांचे संपूर्ण नमुना स्टॉक एक्सचेंजच्या [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) व [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) आणि कंपनीच्या [www.maninfra.com](http://www.maninfra.com) वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.

४. कंपनीची एकमेव अलेखापरिहित वित्तीय निष्कर्ष संदर्भातील महत्वाचे अडवळ खालीलप्रमाणे:

अ. क्र.	तपशील	संपलेली तिमाही	संपलेली तिमाही	संपलेली तिमाही	संपलेली तिमाही	संपलेली तिमाही	संपलेली वर्ष
१	कार्यचलनातून एकूण उत्पन्न (निव्वळ)	२३८९२.९०	१६२१९.०१	९५२२.७६	५९०४९.४८	२३८०९.८७	३९९९०.०२
२	करपूर्व नफा/(तोटा)	६१४६.०४	६३४९.८३	४९९४.७७	१७०४८.८३	१९०५५.९०	१३९२०.४३
३	करानंतर नफा/तोटा	४६७०.३९	५४७२.२४	३९९४.६९	१३६९७.०९	८९०३.५४	१०५६३.६६

मंडळाच्या आदेशान्वये  
मन इन्फ्राकन्स्ट्रक्शन लिमिटेडकरिता  
सही/-  
मन पी. शाह  
व्यवस्थापकीय संचालक

दिनांक: ०२ फेब्रुवारी, २०२३  
दिवाना: मुंबई

## जाहीर सूचना

सर्वसामान्य जणते वेळे सूचना देण्यात येत आहे की, श्री. मनिन प्रफुल्लचंद्र खारिया व सौ. प्रफुल्लचंद्र मंगलाल खारिया यांनी दिनांक ०२.०८.२०१८ रोजीचे (नोंदणी क्र. बीआयएस-२/१५२१/२०१८) चिकीत्सामुखामुख खाली नुदर केलेली मालमत्ता खंडीत केली होती. श्री. प्रफुल्लचंद्र मंगलाल खारिया यांचे ०१.०१.२०२२ रोजी निधन झाल्यानंतर मनिन प्रफुल्लचंद्र खारिया यांनी दिनांक १०.०८.२०२२ रोजीचे (नोंदणी क्र. बीआयएस-५/१४३४/२०२२) चिकीत्सामुखामुख मार्केट कावेरी वारसाद्वारे मंजूर प्राप्त केले. श्री. मनिन प्रफुल्लचंद्र खारिया यांच्याकडे मालकीच्या ८१.५८% धारणा आहे आणि सौ. मनिन खारिया यांच्याकडे मालमत्तेचे मालकीच्या १८.४२% धारणा आहे. जर कोणी व्यक्ती सध्या मालमत्तेवर कोणताही दावा, अधिकार, गेअर, हस्त अडवळस वा त्यांनी त्यांचे दावा सादर सूचना प्रकाशनानामु ७ दिवसात कळवावे, अन्यथा असा कोणताही दावा त्याम केले आहेत असे समजून माझे अधिकार बंधनकारक असणारे नावित आणि स्पष्ट बाजामात्र बोध व सर्व अधिभागापसून मुक असलेले सादर पत्रव्येचे अधिकारवा पुढील प्रक्रिया माझे अतीत करतील.

मालमत्तेची अनुसूची  
पॉल्ट क्र. ए-८०५, शेवटकडे ६८५, बी.ए. (कॉरपॅरेशन), ८वा मजला, ए. वी. प्रफुल्लचंद्र खारिया को-ऑपरेटिव्ह होमिन्स सोसायटी इन्फ्राने क्रा ए सोसायटी, न्यू लिंक रोड, विन्गोली टॅकनोपॉलिस एक्सचेंज वगळीत, वारिवाली पश्चिम, मुंबई-४०००२२, महसूल गाव एमए, जिन्हा मुंबई उन्नागर, जमीन सोदिएस क्र. ३७२ (भाग), अंतिम पॉल्ट क्र. ५१८, ५२१, ५२२, ५२३, टीपीएस ३. आज दिनांकीत ०४ फेब्रुवारी, २०२३

अॅड. वाणादीपिका जेठू (वकील उच्च न्यायालय)  
गाळ क्र. १, मनिन इंडस्ट्रीयल इस्टेट नं. १, समर्थकुपा नगर, वरई (पूर्वी), पालघर-४०१२०८.

This advertisement cum corrigendum is for information purposes only and neither constitutes an offer or an invitation or a recommendation to purchase, to hold or sell securities nor for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This is not an announcement for the offer document. All capitalized terms used herein and not defined herein shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated January 18, 2023 (the "Letter of Offer" or "LOF") filed with the Stock Exchange, namely BSE Limited ("BSE") and with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") for information and dissemination on the SEBI's website pursuant to the proviso to Regulation 3 of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations").

**Family Care**  
HOSPITALS  
**FAMILY CARE HOSPITALS LIMITED**  
Corporate Identification Number: L93000MH1994PLC080842  
Registered Office: Plot A-357, Road No. 26, Wagle Industrial Estate, MIDC, Thane (West) - 406604, Maharashtra, India.  
Tel: +91 022-4184 2201; E-mail: [csscandeni@gmail.com](mailto:csscandeni@gmail.com); Website: [www.scandent.in](http://www.scandent.in);  
Contact Person: Pandoo Naig, Managing Director | OUR PROMOTER: Gautam Deshpande

**NOTICE TO THE ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF FAMILY CARE HOSPITALS LIMITED (THE "COMPANY")**  
RIGHTS ISSUE PERIOD EXTENDED  
LAST DATE FOR RECEIPT OF RIGHTS ISSUE APPLICATION FORMS IS EXTENDED UPTO  
TUESDAY, FEBRUARY 21, 2023\*

# Eligible Equity Shareholders are requested to ensure that renunciation through off-market transfer is completed in such a manner that the Rights Entitlements are credited to the demat account of the Renouncee(s) on or prior to the Issue Closing Date.  
\* # Our Rights Issue committee vide its meeting held on February 03, 2023 has extended the Issue period to Tuesday, February 21, 2023. The said extension period as stated above is within the applicable regulations prescribed in this regard in Terms of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and Companies Act 2013.  
ISSUE OF UPTO 4,07,67,000 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") OF OUR COMPANY FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 12/- EACH INCLUDING SECURITIES PREMIUM OF ₹ 2/- PER RIGHTS EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING UPTO ₹ 4892.04 LAKHS\* ON A RIGHTS BASIS TO THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS OF OUR COMPANY IN THE RATIO OF 127 RIGHTS EQUITY SHARES) FOR EVERY 100 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES) HELD BY THE EXISTING EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, THAT IS ON TUESDAY, JANUARY 03, 2023 (THE "ISSUE"). THE ISSUE PRICE FOR THE RIGHTS EQUITY SHARES IS ₹ 12 WHICH IS 1.2 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. FOR FURTHER DETAILS, PLEASE SEE THE SECTION TITLED "TERMS OF THE ISSUE" ON PAGE 174 OF THE LETTER OF OFFER.  
\*Assuming Full subscription

<b>ASBA*</b>	Simple, Safe, Smart way of Application - Make use of IIT!	Applications Supported by Blocked Amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For details, check section on ASBA below.
--------------	---	--

**Process of making an Application in the Issue**  
In accordance with Regulation 76 of the SEBI ICDR Regulations, the SEBI Rights Issue Circulars and the ASBA Circulars, all investors desiring to make an application in this Issue are mandatorily required to use the ASBA process, who are holding the equity shares of our Company as on the record date i.e. Tuesday, January 03, 2023. Investors should carefully read the provisions applicable to such applications before making their application through ASBA. For details, please see "Process of Making An Application In The Issue" on page 176 of the Letter of Offer.  
Please note that in accordance with Regulation 77A of the SEBI ICDR Regulations read with the SEBI Rights Issue Circulars, the credit of Rights Entitlements and Allotment of Equity Shares shall be made in dematerialised form only. Accordingly, Eligible Equity Shareholders holding Equity Shares in physical form as on Record Date and desirous of subscribing to Equity Shares in this Issue are advised to furnish the details of their demat account to the Registrar or our Company at least two Working Days prior to the Issue Closing Date i.e., Tuesday, February 21, 2023 to enable the credit of their Rights Entitlements in their respective demat accounts at least one day before the Issue Closing Date. The Shareholder who failed to provide their demat details in the stipulated time then their rights entitlement shall lapse and shall not be eligible to apply in this issue.  
Prior to the Issue Opening Date, the Rights Entitlements of those Eligible Equity Shareholders, among others, who hold Equity Shares in physical form, and whose demat account details are not available with our Company or the Registrar, shall be credited in a demat suspense escrow account opened by our Company.  
**ELIGIBLE EQUITY SHAREHOLDERS OF THE COMPANY WHO ARE ENTITLED TO APPLY FOR THE RIGHTS ISSUE ARE REQUESTED TO TAKE NOTE OF THE NEW ISSUE CLOSURE DATE AS FEBRUARY 21, 2022. ACCORDINGLY, THERE IS NO CHANGE IN THE LETTER OF OFFER, ABRIDGED LETTER OF OFFER, STATUTORY ADVERTISEMENT, ENTITLEMENT LETTER AND APPLICATION FORM, EXCEPT OF MODIFICATION IN THE ISSUE CLOSING DATE; RESULTANT CHANGE IN THE INDICATIVE TIME TABLE OF POST ISSUE ACTIVITIES ON ACCOUNT OF EXTENSION OF ISSUE CLOSING DATE.**  
The Letter of Offer shall be read in conjunction with this Corrigendum and the Letter of Offer stands suitably modified to the extent of information set out above. The information in this Corrigendum supersedes the information in the Letter of Offer to the extent inconsistent with the information in the Letter of Offer.  
All capitalised terms used in this Corrigendum shall unless the context otherwise requires, have the same meanings as ascribed in the Letter of Offer.

COMPANY	LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE
<b>Family Care</b> HOSPITALS FAMILY CARE HOSPITALS LIMITED Plot A-357, Road No. 26, Wagle Industrial Estate, MIDC, Thane (West) - 406604, Maharashtra, India. Telephone : +91 022-4184 2201 E-mail : <a href="mailto:csscandeni@gmail.com">csscandeni@gmail.com</a> Website : <a href="http://www.scandent.in">www.scandent.in</a> Contact Person : Pandoo Naig	<b>FEDEX SECURITIES PRIVATE LIMITED</b> 3rd Floor, B Wing, Jay Chambers, Dayaldas Road, Vile Parle (E), Mumbai - 400 057, Maharashtra, India Tel No. : +91 81049 85249 E-mail: <a href="mailto:mb@fedsec.in">mb@fedsec.in</a> Website: <a href="http://www.fedsec.in">www.fedsec.in</a> Contact Person: Radhika Maheshwari SEBI Registration Number: INM000010163 Investor Grievance E-Mail: <a href="mailto:mb@fedsec.in">mb@fedsec.in</a>	<b>PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED</b> 9, Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg, Near Lodha Excelus, Lower Parel (E), Mumbai - 400011, Maharashtra, India. Tel No. : +91-22-2301 2518/6781; Fax No: NA Email: <a href="mailto:support@purvashare.com">support@purvashare.com</a> ; Contact Person: Deepali Dhuri; Website: <a href="http://www.purvashare.com">www.purvashare.com</a> SEBI Registration Number: INR000001112

The Letter of Offer shall be available on website of SEBI at [www.sebi.gov.in](http://www.sebi.gov.in); the website of BSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com); website of the Company at [www.scandent.in](http://www.scandent.in) and the website of the Lead Manager [www.fedsec.in](http://www.fedsec.in). Investors should note that investment in equity shares involves a degree of risk and for details relating to the same, please see the section entitled "Risk Factors" beginning on page 22 of the Letter of Offer. This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in the United States. The announcement does not constitute an offer of Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States and any Equity Shares described in this announcement may not be offered or sold in the United States. Investors may contact the Registrar to the Issue or the Company for any pre-issue/post-issue related matters. All grievances relating to the ASBA process may be addressed to the Registrar to the Issue, with a copy to the SEBS, giving full details such as name, address of the applicant, number of Equity Shares applied for, amount blocked, ASBA Account number and the Designated Branch of the SEBS where the application form, or the plain paper application, as the case may be, was submitted by the investor.

**For Family Care Hospitals Limited**  
On behalf of Board of Directors  
Sd/-  
Pandoo Naig  
Managing Director

Date : February 03, 2023  
Place : Mumbai

# Fullerton Grihashakti

Fullerton India Home Finance Company Limited  
Registered office address: Megh Towers, 3rd Floor, Old No. 307, New No. 165, Poonamallee High Road, Maduravoyal, Chennai - 600 095 Tamil Nadu  
Toll free no. 1800 102 1003 | Email : [grihashakti@fullertonindia.com](mailto:grihashakti@fullertonindia.com)  
Website : [www.grihashakti.com](http://www.grihashakti.com) | CIN number : U65922TN2010PLC076972

## 1. Extract of financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2022

Particulars	Quarter ended Dec 31, 2022	Quarter ended Sep 30, 2022	Quarter ended Dec 31, 2021	Nine months ended Dec 31, 2022	Nine months ended Dec 31, 2021	Year ended Mar 31
-------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------------------